



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1046]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 1046]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/VAISAKHA 12, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

का.आ. 1603(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3275 (अ), तारीख 4 दिसम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के जुनागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंशन) के 263.000 कि.मी. से 306.080 कि.मी. (गडु-पोरबंदर-द्वारका सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (वौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12 दिसम्बर, 2015 को "संदेश" और "इण्डियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलिंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (विस्तृतिकरण) के 263.000 कि.मी. से 306.080 कि.मी. तक
(गडु - पोरबंदर - द्वारका सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे सं.		भूमि की प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
				3 क मे प्रकाशन के अनुसार	जेएमएस के अनुसार				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	जुनागढ़	(1) माळीया (हा)	(1) चोरवाड	404	404	सरकारी	फल जाड	1.5551	सरकारी
				1181	1181	सरकारी	खराबा	0.3246	सरकारी
				616/P1	616/P1	सरकारी	खराबा	0.2129	सरकारी
				Travers/P	Travers/P	सरकारी	खराबा	0.8669	सरकारी
							Total	2.9595	

[फा. सं. भाराप्र/11011/गुजरात/सोमनाथ/एलए]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

S.O. 1603(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3275(E), dated the 04th December 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Ext.) on the stretch of land from km. 263.000 to km. 306.080 (Gadu - Porbandar - Dwarka Section) in the District Junagadh, in the State of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sandesh” and “Indian Express” both dated 12.12.2015 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person, by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 263.000 to km. 306.080 (Gadu - Porbandar - Dwarka section) of National Highway No.-8E(Ext.) in the State of Gujarat.

Serial No.	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey Number		Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of the land owner / Interested person
				As notified in 3A	As per JMS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Junagadh	(1) Maliya (H)	(1) Chorwad	404	404	Government	Fruit&Trees	1.5551	Government
				1181	1181	Government	Kharaba	0.3246	Government
				616/P1	616/P1	Government	Kharaba	0.2129	Government
				Travers/P	Travers/P	Government	Kharaba	0.8669	Government
							Total	2.9595	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Somnath/LA]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.